

DLF LIMITED

DLF Gateway Tower, R Block,
DLF City Phase – III, Gurugram – 122 002,
Haryana (India)
Tel.: (+91-124) 4396000, investor-relations@dlf.in



22nd July 2025

| | |
|---|---|
| The General Manager Dept. of Corporate Services BSE Limited P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001 | The Vice-President National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051 |
|---|---|

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper publication regarding Notice to shareholders for transfer of equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **DLF Limited**

R. P. Punjani
Company Secretary

Encl.: As above

| |
|--|
| For Stock Exchange's clarifications, please contact:- Mr. R. P. Punjani – 09810655115/ punjani-rp@dlf.in Ms. Nikita Rinwa – 09069293544/ rinwa-nikita@dlf.in |
|--|

DLF LIMITED

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg,
Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana)
CIN : L70101HR1963PLC002484
Tel.: 91-124-4334200
Website : www.dlf.in; Email : investor-relations@dlf.in

**NOTICE**

For transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority [As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013]

This notice is published pursuant to the applicable provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment(s) thereto (the 'IEPF Rules') and provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the 'Act') which outlines the provisions for transfer of shares in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to the IEPF Authority.

In compliance with the IEPF Rules and the Act, individual communication has simultaneously been sent to all the Shareholders at their latest available address, whose dividend amount(s) since the financial year 2017-18 (Final) remain unclaimed for 7 (seven) consecutive years and whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Authority.

The Company has also uploaded the details of all such Shareholders, along with details of equity shares due for transfer to the IEPF Authority, on its Website at <https://www.dlf.in/investor>. Shareholders can verify the details using their DP ID/ Client ID/ PAN/ Folio Number.

The Shareholders are advised to claim such unclaimed dividend amount(s) on or before 17th October 2025 from the Company.

In case the Company or KFin Technologies Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('KFin/ RTA') does not receive any communication from the concerned Shareholder on or before 17th October 2025, the unclaimed dividend amount(s) for FY 2017-18 (Final) will be transferred to the IEPF. Furthermore, the equity shares will also be transferred to the IEPF Authority without any further notice to the Shareholders in the following manner:

- **In case you hold equity shares in physical form** – New share certificate(s) will be issued in lieu of the original share certificate(s) held by you, for the purpose of dematerialization and transfer of equity shares in favour of IEPF Authority upon completion of necessary formalities. Therefore, the original share certificate(s) registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- **In case you hold equity shares in electronic form** - The Company will inform the Depository through a corporate action for the transfer of equity shares lying in your demat account in favour of the IEPF Authority.

The concerned Shareholders are requested to note that all future benefits arising on such equity shares transferred to the IEPF Authority will also be issued/ transferred in favour of the IEPF Authority, in compliance with the provisions of the IEPF Rules and the Act.

The Shareholders are further advised that the details of unclaimed dividend amount(s) and equity shares of the concerned Shareholder(s), as uploaded by the Company on its website at <https://www.dlf.in/investor>, shall be deemed adequate notice regarding the issuance of the new share certificate(s) by the Company for the transfer of equity shares to the IEPF Authority, pursuant to the IEPF Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company regarding the dividend amount(s)/ equity shares, once transferred to the IEPF Authority.

The concerned Shareholders, whose unclaimed dividend amount(s)/ equity shares have been transferred to the IEPF Authority, can claim the same from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Web Form IEPF-5, after obtaining an entitlement letter from the Company and sending a physical copy of the same, along with the requisite documents as enumerated in the Form IEPF-5, to the Company.

In case the Shareholders have any queries regarding the subject or the IEPF Rules, they may write to the Company at investor-relations@dlf.in or contact Mr. S. R. Ramesh of KFin Technologies Limited, the Company's RTA, at Selenium Building, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad — 500032, Telangana; Toll Free No. 1800 3094 001; Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com

For DLF Limited
Sd/-

(R.P. Punjani)

Company Secretary & Nodal Officer
FCS: 3757

July 21, 2025
Gurugram

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग,
फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम - 122 002 (हरियाणा)
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोन: 91-124-4334200
वेबसाइट: www.dlf.in; ई-मेल: investor-relations@dlf.in

**सूचना**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

यह सूचना विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और उस पर अनुवर्ती संशोधन ('आईईपीएफ नियम') के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है जिसमें आईईपीएफ प्राधिकरण को उन शेयरों के स्थानांतरण के प्रावधान शामिल हैं जिसके संबंध में लामांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अदावाकृत है।

आईईपीएफ नियमों और अधिनियम के अनुपालन में उन सभी शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर एक साथ व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिनकी लामांश राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम) से लगातार सात (07) वर्षों तक दावा न की गई हो और जिनके इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए जाने के योग्य हों।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट <https://www.dlf.in/investor> पर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किए जाने के लिए देय इक्विटी शेयरों के विवरणों के साथ ऐसे सभी शेयरधारकों का विवरण अपलोड भी किया है। शेयरधारक अपने डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी / पैन नं. / फोलियो नम्बर के माध्यम से विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से 17 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले ऐसी दावा न की गई लामांश राशि का दावा करें।

यदि कंपनी या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('केफिन/आरटीए') को 17 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले संबंधित शेयरधारक से कोई सूचना नहीं मिलती है तो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए दावा न की गई लामांश राशि आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के योग्य इक्विटी शेयर भी शेयरधारकों को बिना किसी सूचना के निम्नलिखित तरीके से आईईपीएफ प्राधिकरण में स्थानांतरित किए जाएंगे:

- **भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में**— आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में इक्विटी शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन और स्थानांतरण के उद्देश्य से आपके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार, आपके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द और अपरक्राम्य माना जाएगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में**— कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में आपके डीमैट खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के लिए कॉर्पोरेट कारवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित ऐसे इक्विटी शेयरों पर उत्पन्न होने वाले सभी भविष्य के लाभ भी अधिनियम और आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में जारी / स्थानांतरित किए जाएंगे।

शेयरधारकों को आगे सलाह दी जाती है कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट <https://www.dlf.in/investor> पर अपलोड किए गए संबंधित शेयरधारक (शेयरधारकों) के अदावाकृत लामांश राशि और इक्विटी शेयरों का विवरण आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना के रूप में माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित होने के बाद लामांश राशि / इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

संबंधित शेयरधारक जिनकी दावा न की गई लामांश राशि / इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिए गए हैं, कंपनी से पात्रता पत्र प्राप्त करने और भेजने के बाद निर्धारित वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके आईईपीएफ प्राधिकरण के पास इसका दावा कर सकते हैं। फॉर्म आईईपीएफ-5 में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसकी भौतिक प्रतिलिपि कंपनी के पास जमा करनी होगी।

इस विषय या आईईपीएफ नियमों पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कंपनी को investor-relations@dlf.in पर लिख सकते हैं या श्री एस. आर. रमेश, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के आरटीए से सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, गाजीबोवली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना: टोल फ्री नं. 1800 3094 001; ई-मेल: einward.ris@kfintech.com; वेबसाइट www.kfintech.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीएलएफ लिमिटेड

हस्ता / -

(आर.पी. पुजानी)

कंपनी सचिव एवं नोडल अधिकारी
एफसीएस: 3757

21 जुलाई, 2025
गुरुग्राम